

# पुष्पी पादपों की आकारिकी

## Morphology of Flowering Plants

### Chapter-5

#### अभ्यास के अन्तर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर

**प्रश्न 1.** मूल के रूपान्तरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में किस प्रकार का रूपान्तरण पाया जाता है?


- (अ) बरगद, (ब) शलजम, (स) मैंग्रोव वृक्ष।

**उत्तर—**

#### मूल के रूपान्तरण

मूल अथवा जड़ का सामान्य कार्य पौधे को स्थिर रखना और जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना है। इसके अतिरिक्त जड़ें कुछ विशिष्ट कार्यों को सम्पन्न करने के लिए रूपान्तरित हो जाती हैं।

- (अ) बरगद (Banyan Tree)—इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर मिट्टी में धूंस जाती हैं। इन्हें स्तम्भ मूल (prop roots) कहते हैं। ये शाखाओं को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करती हैं। ये अपस्थानिक होती हैं।
- (ब) शलजम (Turnip)—इसकी मूसला जड़ भोजन संचय के कारण फूलकर कुम्भ रूपी हो जाती है। इसे कुम्भीरूप जड़ (napiform root) कहते हैं।
- (स) मैंग्रोव वृक्ष (Mangrove Tree)—ये पौधे लवणोद्धिक होते हैं। इनकी कुछ जड़ों के अन्तिम छोर खूंटी की तरह मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। इन पर श्वास रन्धा पाए जाते हैं। ये जड़ें श्वसन मूल कहते हैं; जैसे—राइजोफोरा (Rhizophora) में।




चित्र—(A) बरगद की स्तम्भ मूल, (B) शलजम की कुम्भीरूप जड़, (C) राइजोफोरा की श्वसन मूल।

**प्रश्न 2.** बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करें—

- (i) “पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं।”  
(ii) फूल एक रूपान्तरित प्रोटोहै।


**उत्तर—**पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए—आलू, अरबी आदि। ये तने के रूपान्तरण हैं। ये भूमिगत तना हैं। इन्हें कन्द कहते हैं तथा ये भोजन संचयन का कार्य करते हैं। ये तना हैं इसकी पुष्टि अग्रवत् की जा सकती है—

1. इन पर आँख (eye) मिलती है जो वस्तुतः कक्षस्थ कलिका की सुरक्षा करती है।
  2. यदि इसे अंकुरण के लिए रखा जाए तो इस कक्षस्थ कलिका से शाखा निकलती है।
  3. जड़ में कोई पर्व अथवा पर्व सन्धि नहीं होती है; अतः किसी प्रकार का अंकुरण होने के लिए कक्षस्थ कलिका भी नहीं होती है।
- (ii) फूल एक रूपान्तरित प्ररोह है (Flower is a modified shoot)—पुष्प एक रूपान्तरित प्ररोह (modified shoot) है। पुष्प का पुष्पासन अत्यन्त संघनित अक्षीय तना है। इसमें पर्वसन्धियाँ अत्यधिक पास-पास होती हैं। पर्व स्पष्ट नहीं होते। झुमकलता (*Passiflora suberosa*) में बाह्यदल तथा दल पुष्पासन के समीप लगे होते हैं, लेकिन पुकेसर व अण्डप कुछ ऊपर एक सीधी अक्ष पर होते हैं। इसे पुमंगधर (androphore) कहते हैं। हुरहुर (*Gynandropsis*) में पुष्प दलपुंज व पुमंग के मध्य पुमंगधर तथा पुमंग एवं जायांग के मध्य जायांगधर (gynophore) पर्व स्पष्ट होता है।
- कभी-कभी गुलाब के पुष्पासन की वृद्धि नहीं रुकती और पुष्प के ऊपर पत्तियों सहित अक्ष दिखाई देती है।



चित्र—(A) झुमकलता में पुमंगधर, (B) हुरहुर में पुमंगधर तथा जायांगधर,  
(C) गुलाब में पुष्प निर्माण के पश्चात् पुष्पासन में वृद्धि।

बाह्यदल, दल, पुकेसर, अण्डप, पत्तियों के रूपान्तरण हैं। मुसेन्डा (*Mussaenda*) में एक बाह्यदल पत्ती सदृश रचना बनाता है। गुलाब में बाह्यदल कभी-कभी पत्ती सदृश रचना प्रदर्शित करते हैं। लिली (निम्फिया) बाह्यदल एवं दल के मध्य की पत्ती जैसी रचना है। गुलाब, कमल, केना आदि में अनेक पुकेसर दलों में बदले दिखाई देते हैं। आदिपादपों के पुकेसर पत्ती समान थे; जैसे—ऑस्ट्रोबेलिया (*Austrobaileya*) में प्रदर्शित होता है।



चित्र—केना में दल व दलाभ पुकेसर के मध्य की विभिन्न अवस्थाएँ।

**प्रश्न 3.** एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है?  
**उत्तर—** पिच्छाकार संयुक्त तथा हस्ताकार संयुक्त पत्ती में अन्तर


क्र० सं०	पिच्छाकार संयुक्त पत्ती	हस्ताकार संयुक्त पत्ती
1.	पत्ती की आकृति पंख सदृश (feather like) होती है।	पत्ती की आकृति हाथ की हथेली जैसी प्रतीत होती है।
2.	पर्णक (leaflets) रेकिस (rachis) पर दोनों ओर लगे रहते हैं।	पर्णक पर्णवृन्त के छोर पर एक ही बिन्दु पर लगे रहते हैं।
3.	रेकिस की संरचना के आधार पर ये एकपिच्छकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी या चतुर्पिच्छकी होती हैं।	पर्णकों की संख्या के आधार पर ये एकपर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्पर्णी या बहुपर्णी होती हैं।

**प्रश्न 4.** विभिन्न प्रकार के पर्णविन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

**उत्तर—**

### पर्णविन्यास

तने या शाखा की पर्वसन्धियों पर पत्तियाँ एक विशिष्ट क्रम में लगी होती हैं। इसे पर्णविन्यास कहते हैं। पर्वसन्धि पर पत्तियों की संख्या एक, दो अथवा दो से अधिक होती है। पर्ण विन्यास निम्नलिखित प्रकार का होता है—



बित्र-पर्णविन्यास—(A) एकान्तर, (B) अभिमुख-क्रॉसिस।

1. **एकान्तर (Alternate)**—जब एक पर्वसन्धि पर एक पत्ती होती है तथा अगली और पिछली पर्वसन्धि पर लगी पत्ती से इसकी दिशा विपरीत होती है; जैसे—गुड़हल, सरसों आदि।
2. **अभिमुख (Opposite)**—जब एक पर्वसन्धि पर दो पत्तियाँ होती हैं, तब दो प्रकार की स्थिति हो सकती हैं—
  - (क) **अध्यारोपित (Superposed)**—जब पत्तियों की दिशा प्रत्येक पर्वसन्धि पर एक ही होती है; जैसे—अमरुद।
  - (ख) **क्रॉसिस (Decussate)**—जब दो पत्तियों की दिशा प्रत्येक पर्वसन्धि पर पिछली तथा अगली पर्वसन्धि की अपेक्षा समकोण पर होती है; जैसे—आका।
3. **चक्रिक (Whorled)**—जब एक पर्वसन्धि पर दो से अधिक पत्तियाँ होती हैं; जैसे—कनेर।



चित्र-पर्णविन्यास—(A) अधिपुख-अध्यारोपित, (B) चकिका।

#### प्रश्न 5. निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए—



- (अ) पुष्पदल विन्यास, (ब) बीजाण्डन्यास, (स) त्रिज्यासमिति
- (द) एकव्याससमिति (य) ऊर्ध्ववर्ती (र) परिजायांगी पुष्प (ल) दललग्न पुंकेसर।

**उत्तर—**(अ) पुष्पदल विन्यास (Aestivation)—कलिका अवस्था में बाह्यदलों या दलों (sepals or petals) की परस्पर सापेक्ष व्यवस्था को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। यह कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी या वैक्जीलरी प्रकार का होता है।

(ब) बीजाण्डन्यास (Placentation)—अण्डाशय में जरायु (placenta) पर बीजाण्डों की व्यवस्था को बीजाण्डन्यास कहते हैं। बीजाण्डन्यास सीमान्त, स्तम्भीय, भित्तीय, मुक्त स्तम्भीय, आधार-लग्न या धरातलीय प्रकार का होता है।

(स) त्रिज्यासमिति (Actinomorphy)—जब पुष्प को किसी भी मध्य लम्ब अक्ष से काटने पर दो सम अर्द्ध-भागों में विभक्त किया जा सके तो इसे त्रिज्यासमिति (actinomorphy) कहते हैं।

(द) एकव्याससमिति (Zygomorphy)—जब पुष्प केवल एक ही मध्य लम्ब अक्ष से दो सम अर्द्ध-भागों में विभक्त किया जा सके तो इसे एकव्याससमिति कहते हैं।



चित्र-पर्णविन्यास—(A) त्रिज्यासमिति, (B) एकव्याससमिति।

(य) ऊर्ध्ववर्ती अण्डाशय (Superior Ovary)—जब पुष्प के अन्य भाग अण्डाशय के नीचे से निकलते हैं तो पुष्प को अधोजाय तथा अण्डाशय को ऊर्ध्ववर्ती (superior) कहते हैं।

(र) परिजायांगी पुष्प (Perigynous Flower)—यदि पुष्पीय भाग पुष्पासन से अण्डाशय के समान ऊँचाई से निकलते हैं तो इस प्रकार के पुष्प परिजायांगी (perigynous) कहलाते हैं। इसमें अण्डाशय आधा ऊर्ध्ववर्ती (half superior) होता है।

(ल) दललग्न पुकेसर (Epipetalous Stamens)—जब पुकेसर दल से लगे होते हैं तो इन्हें दललग्न (epipetalous) कहते हैं।

#### प्रश्न 6. निम्नलिखित में अन्तर लिखिए—

- (अ) असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम,
- (ब) झाकड़ा जड़ (मूल) तथा अपस्थानिक मूल,
- (स) वियुक्ताण्डपी तथा युक्ताण्डपी अण्डाशय।

उत्तर—

- (अ) असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अन्तर

क्र० सं०	असीमाक्षी (Racemose)	ससीमाक्षी (Cymose)
1.	मातृ अक्ष की वृद्धि असीमित होती है।	मातृ अक्ष के शिखर पर पुष्प निर्माण से वृद्धि रुक जाती है।
2.	पुष्पों की संख्या असीमित होती है।	पुष्पों की संख्या सीमित होती है।
3.	पुष्प मातृ अक्ष पर अग्राभिसारी क्रम (acropetal succession) में लगे होते हैं।	पुष्प मातृ अक्ष पर तलाभिसारी क्रम (basipetal succession) में लगे होते हैं।
4.	पुष्प परिधि से केन्द्र की ओर (centripetal) खिलते हैं।	पुष्प केन्द्र से परिधि की ओर (centrifugal) खिलते हैं।
5.	पुष्प प्रायः सहपत्री होते हैं।	पुष्प सहपत्ररहित होते हैं।

#### (ब) झाकड़ा जड़ में अन्तर

क्र० सं०	झाकड़ा जड़ (Fibrous Roots)	अपस्थानिक जड़ (Adventitious Roots)
1.	एकवीजपत्री पौधों में मूसला जड़ अल्पजीवी (short lived) होती है, इसके स्थान पर तने के आधार से अनेक समान भेटाई की जड़ें निकल आती हैं, इन्हें झाकड़ा जड़ें कहते हैं; जैसे— गेहूँ, धान, जौ आदि में।	भूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्य सम्पन्न करती हैं; जैसे—बरगद की स्तम्भ मूल, राङ्गोफोरा की श्वसन मूल, अजूबा की पर्णमूल आदि।

#### (स) वियुक्ताण्डपी तथा युक्ताण्डपी अण्डाशय में अन्तर


क्र० सं०	वियुक्ताण्डपी अण्डाशय (Apocarpous Ovary)	युक्ताण्डपी अण्डाशय (Syncarpous Ovary)
1.	यदि बहुअण्डपी जायांग के सभी अण्डाशय पृथक-पृथक होते हैं तो इसे वियुक्ताण्डपी या पृथकाण्डपी अण्डाशय कहते हैं; जैसे— शरीफा, बदार, स्ट्रोबेरी, कमल आदि में।	यदि बहुअण्डपी जायांग के सभी अण्डाशय परस्पर जुड़े रहते हैं तो इसे युक्ताण्डपी अण्डाशय कहते हैं; जैसे—खीरा, टमाटर, बैंगन, नीबू, पोस्त आदि में।
2.	इनसे पुंजफल बनते हैं।	इनसे एकल फल बनते हैं।

**प्रश्न 7. निम्नलिखित के चिह्नित चित्र बनाइए—**

(अ) चने के बीज तथा (ब) मक्का के बीज की अनुदैर्घ्य काट।


**उत्तर—**

(अ) चने के बीज की अनुदैर्घ्य काट



चित्र-द्विबीजपत्री ( चने ) बीज की संरचना।

(ब) मक्का के बीज की अनुदैर्घ्य काट



चित्र-मक्का ( एकबीजपत्री ) के बीज की संरचना।

**प्रश्न 8. उचित उदाहरण सहित तने के रूपान्तरणों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर—**

**तने के रूपान्तरण**


तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना; जल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना है। हरा होने पर तना भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। तने में योड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को सम्पन्न करने के लिए तने रूपान्तरित हो जाते हैं। कभी-कभी तो रूपान्तरण के पश्चात् तने को पहचानने में भी कठिनाई होती है। सामान्यतया तनों में भोजन संबंध, कार्यिक जनन, बहुवर्षीयता प्राप्त करने हेतु, आरोहण एवं सुरक्षा हेतु रूपान्तरण होता है।

## I. भूमिगत रूपान्तरित तने

भूमिगत तने चार प्रकार के पाए जाते हैं—

(1) प्रकन्द, (2) घनकन्द, (3) तना कन्द तथा (4) शल्क कन्द।


- प्रकन्द (Rhizome)—भूमि के अन्दर भूमि के क्षैतिज तल के समानान्तर बढ़ने वाले ये तने खोजन संग्रह करते हैं। इनमें पर्वसन्धि तथा पर्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं अग्रस्थ कलिकाओं के द्वारा इनकी लम्बाई बढ़ती है तथा शाखाएँ कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा। कुछ कलिकाएँ आवश्यकता पड़ने पर वायवीय प्ररोह का निर्माण करती हैं; जैसे—अदरक, केला, केली, फर्न, हल्दी आदि।



चित्र-प्रकन्द (अदरक)।


- घनकन्द (Corm)—इनके लक्षण प्रकन्द की तरह होते हैं, किन्तु ये ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ने वाले भूमिगत तने होते हैं।

इस प्रकार के तनों में भी पर्वसन्धियाँ तथा पर्व होते हैं। यह खोजन संगृहीत रहता है। कलिकाएँ होती हैं। कक्षस्थ कलिकाएँ विरोहक बनाती हैं। उदाहरण—अरबी, बण्डा, जिमीकन्द इत्यादि।




चित्र-कुछ घनकन्द—(A) जिमीकन्द, (B) घुड़वाँ तथा (C) बण्डा में।

- तना कन्द (Stem Tuber)—ये भूमिगत शाखाओं के अन्तिम सिरों पर फूल जाने के कारण बनते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। कन्द पर पर्व या पर्वसन्धियाँ होती हैं जो अधिक मात्रा में खोजन संग्रह होने के कारण स्पष्ट नहीं होतीं। आलू की सतह पर अनेक आँखें (eyes) होती हैं, जिनमें कलिकाएँ तथा इन्हें ढकने के लिए शल्क पत्र होते हैं। कलिकाएँ वृद्धि करके नए वायवीय प्ररोह बनाती हैं।



चित्र-(A) आलू के पौधों पर तना कन्द, (B) एक आँख का आवर्धन।

4. शत्क कन्द (Bulbs)—इस प्रकार के रूपान्तर में तना छोटा (संक्षिप्त शंक्वाकार या चपटा) होता है। इसके आधारीय भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इस तने पर उपस्थित अनेक शत्क पत्रों में भोजन संगृहीत हो जाता है। तने के अग्रस्थ सिरे पर उपस्थित कलिका से अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय प्रयोग का निर्माण होता है। शत्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ भी बनती हैं। उदाहरण—प्याज (onion), लहसुन (garlic), लिली (lily) आदि के शत्क कन्द।




चित्र-(A) प्याज का शत्क कन्द, (B) प्याज के शत्क कन्द की अनुलम्ब काट।

## II. अद्वायवीय रूपान्तरित तने

कुछ पौधों के तने कमज़ोर तथा मुलायम होते हैं। ये पृथ्वी की सतह के ऊपर या आशिक रूप से मिट्टी के नीचे रोगकर वृद्धि करते हैं। ये तने कार्यिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इनकी पर्वसन्धियों से अपस्थानिक जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती हैं। पर्व के नष्ट होने या कट जाने पर नए पौधे बन जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं—


- (1) उपरिभूस्तारी (Runner), (2) भूस्तारी (Stolon),
- (3) अन्तःभूस्तारी (Sucker), (4) भूस्तारिका (Offset)।

1. उपरिभूस्तारी (Runner)—इसका तना कमज़ोर तथा पतला होता है। यह भूमि की सतह पर फैला रहता है। पर्वसन्धियों से पत्तियाँ, शाखाएँ तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। शाखाओं के शिखर पर शीर्षस्थ कलिका होती है। पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है; जैसे—दूबधास (*Cynodon*), खट्टी-बूटी (*Oxalis*), ब्राह्मी (*Centella asiatica*) आदि।




चित्र-खट्टीबूटी का उपरिभूस्तारी।

2. भूस्तारी (Stolon)—इसमें भूमिगत तने की पर्वसन्धि से कक्षस्थ कलिका विकसित होकर शाखा बनाती है। यह शाखा प्रारम्भ में सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करती है, परन्तु बाद में झुककर क्षैतिज के समानान्तर हो जाती है। इस शाखा की पर्वसन्धि से कक्षस्थ कलिकाएँ तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं; जैसे—स्ट्रॉबेरी, अरवी (घुड़याँ)।



चित्र-भूस्तारी तना : स्ट्रॉबेरी।


3. अन्तःभूस्तारी (Sucker)—इनमें पौधे के भूमिगत तने की आधारीय पर्वसन्धियों पर स्थित कक्षस्थ कलिकाएँ वृद्धि करके नए वायवीय भोग बनाती हैं। ये प्रारम्भ में क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, फिर तिरछे होकर भूमि से बाहर आ जाते हैं और वायवीय शाखाओं की तरह वृद्धि करने लगते हैं। इनकी पर्व सन्धियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं; जैसे—पोदीना (*Mentha arvensis*), गुलदाउदी (*Chrysanthemum*) आदि।



चित्र-अन्तःभूस्तारी—पोदीना।

4. भूस्तारिका (Offset) — जलीय पौधों में पाया जाने वाला उपरिभूस्तारी की तरह का रूपान्तरित तना है। मुख्य तने से पाश्व शाखाएँ निकलती हैं। पर्वसन्धि पर पत्तियाँ तथा अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इनके पर्व छोटे होते हैं। गलने या दूटने से नए पौधे स्वतन्त्र हो जाते हैं। उदाहरण—समुद्र सोख (water hyacinth =

*Eichhornia sp.*), जलकुम्भी (*Pistia sp.*) आदि।




चित्र—जलकुम्भी का भूस्तारी।

### III. वायवीय रूपान्तरित तने


कुछ पौधों में तने का वायवीय भाग विभिन्न कार्यों के लिए रूपान्तरित हो जाता है। रूपान्तरण के फलस्वरूप इन्हें तना कहना आसान नहीं होता है। इनकी स्थिति एवं उद्भव के आधार पर ही इनकी पहचान होती है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं—

- (1) पर्णाभ स्तम्भ और पर्णाभ-पर्व (Phylloclade and Cladode),
- (2) स्तम्भ-प्रतान (Stem tendril),
- (3) स्तम्भ कंटक (Stem thorns),
- (4) पत्र प्रकलिकाएँ (Bulbils)।


1. पर्णाभ स्तम्भ और पर्णाभ-पर्व (Phylloclade and Cladode) — शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों में जल के वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियाँ प्रायः कंटकों में रूपान्तरित हो जाती हैं। पौधे का तना चपटा, हरा व मांसल हो जाता है, ताकि पौधे के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता रहे। तने पर प्रायः मोटी उपचर्म (cuticle) होती है



चित्र—वायवीय तना—नागफनी का पर्णाभ स्तम्भ।



चित्र—वायवीय तना—कोकोलोबा (म्यूलेनबेकिया) का पर्णाभ स्तम्भ।




चित्र—सतावर में पर्णाभ-पर्व।

जो वाष्पोत्सर्जन को रोकने में सहायक होती है। पत्तियों का कार्य करने के कारण इन रूपान्तरित तनों को पर्णाभ या पर्णायित स्तम्भ कहते हैं। प्रत्येक पर्णाभ में पर्वसन्धियाँ तथा पर्व पाए जाते

है। प्रत्येक पर्वसन्धि से पत्तियाँ निकलती हैं जो शीघ्र ही गिर जाती हैं (शीघ्रपाती) या काँटों में बदल जाती हैं। पत्तियों के कक्ष से पुष्ट निकलते हैं। उदाहरण—नागफनी (*Opuntia*) तथा अन्य अनेक कैक्टाई (cactii), अनेक यूफोर्बिया (*Euphorbia sp.*), कोकोलोबा (*Coccoloba*), कैजुएराइना (*Casuarina*) आदि।


पर्णाभ-पर्व केवल एक ही पर्व के पर्णाभ स्तम्भ हैं। इनके कार्य भी पर्णाभ स्तम्भ की तरह ही होते हैं। उदाहरण—सतावर (*Asparagus*) में ये सुई की तरह होते हैं। यहाँ पत्ती एक कुश में बदल जाती है। कोकोलोबा की कुछ जातियों में भी इस प्रकार के पर्णाभ-पर्व दिखाई पड़ते हैं।

2. स्तम्भ प्रतान (Stem Tendril)— प्रतान लम्बे, पले आधार के चारों ओर लिपटने वाली संरचनाएँ हैं। तने के रूपान्तर से बनने वाले प्रतानों को स्तम्भ प्रतान कहते हैं। स्तम्भ प्रतान आधार पर मोटे होते हैं। इन पर पर्व व पर्वसन्धियाँ हो सकती हैं, कभी-कभी पुष्ट भी लगते हैं। ये सामान्यतयः कक्षस्थ कलिका से और कभी-कभी अग्रस्थ कलिकाओं से बनते हैं; जैसे—झुमकलता (*Passiflora*) में कक्षस्थ कलिका से, किन्तु अंगूर की जातियों (*Vitis sp.*) में अग्रस्थ कलिका से रूपान्तरित होते हैं। काशीफल (*Cucurbita*) और इस कुल के अनेक पौधों के प्रतान अतिरिक्त कक्षस्थ कलिकाओं के रूपान्तर से बनते हैं। एण्टीगोनॉन (*Antigonon*) में तो पुष्टावली वृन्त ही प्रतान बनाता है।




चित्र-वायवीय तने—(A) हरजोर में अग्रस्थ कलिका से, (B) झुमकलता में कक्षस्थ तथा (C) एण्टीगोनॉन में पुष्टावली वृन्त से बने प्रतान।

3. स्तम्भ कंटक (Stem thorns)—कक्षस्थ या अग्रस्थ कलिकाओं से बने हुए काँटे स्तम्भ कंटक कहलाते हैं। स्तम्भ कंटक सुरक्षा, जल की हानि को रोकने अथवा कभी-कभी आरोहण में सहायता करने हेतु रूपान्तरित संरचनाएँ हैं। कंटक प्रमुखतः घरुदभिदी पौधों का लक्षण है। उदाहरण—करोंदा, बोगेनिलिया (*Bougainvillea*), इयूरेण्टा (*Duranta*), आडू (*Prunus*) आदि।



चित्र-वायवीय तथा—(A) बोगेनिलिया, (B) अंकेरिया में अंकुश तथा (C) इट्टोरेण्टा में।

4. पत्र प्रकलिकाएँ (Bulbils)—ये कलिकाओं में भोजन संगृहीत होने से बनती हैं। इनका प्रमुख कार्य कार्यिक प्रवर्धन है। ये पौधे से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर नया पौधा बना लेती हैं; जैसे—लहसुन, केतकी (*Agave*), रतालू (*Dioscorea*), खड्डी-बूटी (*Oxalis*), अनन्नास आदि।



चित्र-रतालू में पत्र प्रकलिका।

प्रश्न 9. फेबेसी तथा सोलेनेसी कुल के एक-एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लीजिए तथा उनका अर्द्ध तकनीकी विवरण प्रस्तुत कीजिए। अध्ययन के पश्चात् उनके पुष्पीय चित्र भी बनाइए।

उत्तर—

### कुल फेबेसी

फेबेसी (Fabaceae) या पैपिलियोनेटी (Papilionatae) लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल है। भट्टर (*पाइसम सैटाइम*-*Pisum sativum*) इस उपकुल का एक प्रारूपिक उदाहरण है।

आवास एवं स्वभाव (Habit and Habitat)—यह एकवर्षीय शाक (herb) एवं आरोही, समोद्धिद पादप है।

मूल (Root)—मूसला जड़, ग्रन्थिल (nodulated) जड़ें ग्रन्थियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम रहते हैं।


स्तम्भ (Stem)—शाकीय, वायवीय, दुर्बल, आरोही, बेलनाकार, शाखामय, चिकना तथा हरा।

पत्ती (Leaves)—स्तम्भिक और शाखीय, एकान्तर, अनुपर्णी (stipulate) अनुपर्ण पर्णकार, पत्ती के अंग पर्णक प्रतान (tendril) में रूपान्तरित।

पुष्पक्रम (Inflorescence)—एकल कक्षस्थ (solitary axillary) या असीमाक्षी (racemose)।


पुष्प (Flower)—सहपत्री (bracteate), सवृन्त, पूर्ण, एकव्याससमित (zygomorphic), उभयलिंगी, पंचतयी, परिजायांगी (perigynous), चक्रिकी।

बाह्यदलपुंज (Calyx)—बाह्यदल 5, संयुक्त बाह्यदली (gamosepalous), कोरस्पर्शी (valvate) अथवा कोरछादी विन्यास (imbricate aestivation)।



चित्र-मटर (*Pisum sativum*) के पौधे के विभिन्न भाग, पुष्प तथा उसके अवयव।

दलपुंज (Corolla)—दल 5, पृथक्दली, वैक्जीलरी (vexillary) विन्यास, एक ध्वज (standard) पश्च तथा बाहरी, दो पंख (wings), दो जुड़े छोटे दल नाव के आकार के नौतल (keel), आगस्तिक (papilionaceous) आकृति।



FLORAL DIAGRAM  
चित्र-मटर का पुष्टीय चित्र।

पुमंग (Androecium)—पुकेसर 10, द्विसंघी (diadelphous), 9 पुकेसरों के पुतनु संयुक्त व एक पुकेसर स्वतन्त्र, द्विकोषी परागकोश, आधारलग्न (basifixed), अन्तर्मुखी (introrse)।

**जायांग** (Gynoecium)—एकअण्डपी (monocarpellary), अण्डाशय ऊर्ध्ववर्ती या अद्व-अधोवर्ती, एककोषीय, सीमान्त (marginal) बीजाण्डन्यास, वर्तिका लम्बी तथा मुड़ी हुई, वर्तिकाग्र समुण्ड (capitate)।

**फल** (Fruit)—शिम्ब या फली (legume)।

**पुष्प सूत्र** (Floral formula)— $Br.\% \quad K_{(5)} \quad C_{1+2+(2)} \quad A_{(9)+1} \quad G_1$


### कुल सोलेनेसी

कुल सोलेनेसी (Family Solanaceae) का सामान्य पौधा सोलेनम नाइग्रम (*Solanum nigrum*, मकोय) है। यह एक जंगली शाकीय पौधा है जो स्वतः आलू, टमाटर के खेतों में उग आता है।

**आवास एवं स्वभाव** (Habit and Habitat)—जंगली, वार्षिक शाकीय पादप।

**मूल** (Roots)—शाखामय मूसला जड़ तन्त्र।

**स्तम्भ** (Stem)—वायवीय, शाकीय, बेलनाकार, शाखामय, चिकना, हरा।



चित्र—मकोय (सोलेनम नाइग्रम के पौधे के विभिन्न भाग, पुष्प एवं उसके अवयव, पुष्प चित्र)।

**पत्ती** (Leaves)—स्तम्भिक और शाखीय, एकान्तर, सरल, अननुपर्णी (exstipulate) एकशिरीय जालिकावत् (unicostate reticulate)।

**पुष्पक्रम** (Inflorescence)—एकलशाखी कुण्डलिनीय (uniparous helicoid), ससीमाक्षी।

**पुष्प** (Flower)—असहपत्री (ebracteate), सदृश, पूर्ण, द्विलिंगी, त्रिज्यासमिति, पंचतयी (pentamerous), अधोजात्य (hypogynous), छोटे एवं सफेद।

**बाह्यादलपुंज** (Calyx)—5 संयुक्त बाह्यादल (gamopetalous), कोरस्पशी (valvate), हरे, चिरलग्न (persistent)।

**दलपुंज** (Corolla)—5 संयुक्त दल (gamopetalous), चक्राकार (rotate), या व्यावर्तित (twisted) दलविन्यास।

**पुम्पंग** (Androecium)—5 दललग्न पुकेसर, दल के एकान्तर में व्यवस्थित, अन्तर्मुखी, परागकोश लम्बे एवं द्विपालित, पुनर्नु छोटे। परागवेशमें स्फुटन अग्र छिद्रों (apical pores) द्वारा।

**जायांग** (Gynoecium)—द्विअण्डपी (bicarpellary), युक्ताण्डपी (syncarpous), अण्डाशय ऊर्ध्ववर्ती (superior ovary), स्तम्भीय बीजाण्डन्यास (axile placentation), जरायु तिरछा तथा फूला हुआ। वर्तिका एक, वर्तिकाग्र द्विपालित।


**फल** (Fruit)—सरस, बेरी।

**पुष्प सूत्र** (Floral formula)—Ebr  $\oplus$  ♀ K<sub>(5)</sub>C<sub>(5)</sub> A<sub>(5)</sub> G<sub>(2)</sub>

**प्रश्न 10.** पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजाण्डन्यासों का वर्णन करो।  
उत्तर—

अण्डाशय में मृदूतकीय जरायु (placenta) पर बीजाण्डों के लगने के क्रम को बीजाण्डन्यास (placentation) कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है—

1. **सीमान्त** (Marginal)—यह एकअण्डपी अण्डाशय में पाया जाता है। अण्डाशय एककोषीय होता है, बीजाण्ड अक्षीय सम्पति पर विकसित होते हैं; जैसे—चना, मटर, सेम आदि के शिख फलों में।
2. **स्तम्भीय** (Axile)—यह द्विअण्डपी, त्रिअण्डपी या बहुअण्डपी, युक्ताण्डपी अण्डाशय में पाया जाता है। अण्डाशय में जितने अण्डप होते हैं, उतने ही कोष्ठकों का निर्माण होता है। बीजाण्ड अक्षवर्ती जरायु से लगे रहते हैं; जैसे—आलू, टमाटर, मकोय, गुडहल आदि में।



विभिन्न प्रकार के बीजाण्डन्यास—(A) सीमान्त, (B) पित्तीय, (C) स्तम्भीय, (D) मुक्त स्तम्भीय, (E) आवारलग्न, (F) अरातलीय।

3. भित्तीय (Parietal)—यह बहुअण्डपी, एककोष्ठीय अण्डाशय में पाया जाता है। इसमें जहाँ अण्डपों के तट मिलते हैं, वहाँ जरायु विकसित हो जाता है। जरायु (बीजाण्डासन) पर बीजाण्ड लगे होते हैं, अर्थात् बीजाण्ड अण्डाशय की भीतरी सतह पर लगे रहते हैं; जैसे—पपीता, सरसों, मूली आदि में।
4. मुक्त स्तम्भीय (Free central)—यह बहुअण्डपी, एककोष्ठीय अण्डाशय में पाया जाता है। इसमें बीजाण्ड केन्द्रीय अक्ष के चारों ओर लगे होते हैं। केन्द्रीय अक्ष का सम्बन्ध अण्डाशय भित्ति से नहीं होता; जैसे—डायेन्स, प्रिमोरेज आदि।
5. आधारलग्न (Basifixed)—यह द्विअण्डपी, एककोष्ठीय अण्डाशय में पाया जाता है जिसमें केवल एक बीजाण्ड पुष्पाक्ष से लगा रहता है; जैसे—कम्फोजिटी कुल के सदस्यों में।
6. धरातलीय (Superficial)—यह बहुअण्डपी, बहुकोष्ठीय अण्डाशय में पाया जाता है। इसमें बीजाण्डासन या जरायु कोष्ठकों की भीतरी सतह पर विकसित होते हैं, अर्थात् बीजाण्ड कोष्ठकों की भीतरी सतह पर व्यवस्थित रहते हैं; जैसे—कुमुदिनी (water lily) में।

**प्रश्न 11.** पुष्प क्या है? एक प्रस्तुपी एन्जियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए।






**उत्तर—** पुष्प

एन्जियोस्पर्म में जनन हेतु बनने वाली संरचना वास्तव में रूपान्तरित प्ररोह (modified shoot) है। इसका पुष्पासन संघनित तना है जिसमें पर्व का अभाव होता है, केवल पर्वसन्धियाँ होती हैं। पर्वसन्धियों पर पाई जाने वाली पत्तियाँ रूपान्तरित होकर विभिन्न पुष्पीय भाग बनाती हैं। पुष्प विभिन्न आकार, आकृति, रंग के होते हैं। सरसों के पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं—

1. बाह्यदलपुंज
2. दलपुंज
3. पुमंग
4. जायांग

बाह्यदलपुंज तथा दलपुंज सहायक अंग और पुमंग तथा जायांग जनन अंग कहलाते हैं। पुष्पीय भाग पुष्पवृत्त के शिखर पर स्थित पुष्पासन पर लगे रहते हैं।

1. बाह्यदलपुंज (Calyx)—यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को बाह्यदल (sepal) कहते हैं। ये प्रायः हरे होते हैं। सरसों के बाह्यदल हरे-पीले रंग के होते हैं। बाह्यदल अन्य पुष्पीय भागों की सुरक्षा करते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं। रंगीन होने पर परागण में सहायक होते हैं। चिरलग्न बाह्यदल प्रकीर्णन में सहायता करते हैं।
2. दलपुंज (Corolla)—यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसका निर्माण रंगीन दलों (petals) से होता है। सरसों में चार पीले रंग के दल होते हैं। इनका ऊपरी सिरा चौड़ा तथा निचला छोरा पतला होता है। ये परस्पर क्रॉस 'X' रूपी आकृति बनाते हैं; अतः इनको क्रॉसरूपी (cruciform) कहते हैं। ये एक-दूसरे से स्वतन्त्र अर्थात् पृथक्दली (polypetalous) होते हैं। दल परागण में सहायक होते हैं।
3. पुमंग (Androecium)—यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसका निर्माण पुकेसरों (stamens) से होता है। प्रत्येक पुकेसर के तीन भाग होते हैं—पुंतनु, योजि तथा परागकोश (anther)। परागकोश में परागकण या लघुबीजाणु (pollen grains or microspores) बनते हैं। सरसों में 6 पुकेसर होते हैं। ये 4+2 के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। भीतरी चक्र में 4 लम्बे पुंतनु वाले तथा बाहरी चक्र में 2 छोटे पुंतनु वाले पुकेसर होते हैं। पुकेसरों के आधार पर मकरन्द ग्रन्थियाँ पाई जाती हैं।
4. जायांग (Gynoecium)—यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसका निर्माण अण्डपों से होता है। प्रत्येक अण्डप (carpel) के तीन भाग होते हैं—अण्डाशय (ovary), वर्तिका (style) तथा वर्तिकाग्र (stigma)। सरसों का जायांग द्विअण्डपी (bicarpellary), युक्ताण्डपी (syncarpous) तथा ऊर्ध्ववर्ती (superior) अण्डाशय युक्त होता है। अण्डाशय में बीजाण्ड भित्तिलग्न बीजाण्डन्यास में लगे होते हैं। अण्डाशय पहले एक कोष्ठीय होता है, बाद में



चित्र-सरसों के पुष्प के विभिन्न भाग—(A) पुष्प, (B) पुष्प के विभिन्न भाग,  
(C) बाह्य दल, (D) दल, (E) पुष्प एवं जायांग।

कूटपट (replum) बनने के कारण फ्रिकोष्टीय हो जाता है। वर्तिका एक तथा वर्तिकाग्र द्विपालित होता है।

पुष्प सूत्र— $Ebr \oplus K_{2+2} C_{x+4} A_{2+4} G (2)$

निषेचन के पश्चात् बीजाण्ड से बीज तथा अण्डाशय से फल का निर्माण होता है। सरसों के फल सरल, शुष्क, सिलिकुआ (siliqua) होते हैं।

**प्रश्न 12. पत्तियों के विभिन्न रूपान्तरण पौधे की कैसे सहायता करते हैं?**


**उत्तर—**

पत्तियों का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन, श्वसन आदि सामान्य कार्य भी पत्तियाँ करती हैं, किन्तु कभी-कभी विशेष कार्य करने के लिए इनका स्वरूप ही बदल जाता है। ये रूपान्तरण सम्पूर्ण पत्ती या पत्ती के किसी भाग या फलक के किसी भाग में होते हैं। उदाहरण के लिए—

1. प्रतान (Tendril)—सम्पूर्ण पत्ती या उसका कोई भाग, लम्बे, कुण्डलित तन्तु की तरह की रचना में बदल जाता है। इसे प्रतान (tendril) कहते हैं। प्रतान दुर्बल पौधों की आरोहण में सहायता करते हैं। जैसे—

- (क) जंगली मटर (*Lathyrus aphaca*) में सम्पूर्ण पत्ती प्रतान में बदल जाती है।
- (ख) मटर (*Pisum sativum*) में अगले कुछ पर्णक प्रतान में बदल जाते हैं।
- (ग) ग्लोरी लिली (*Gloriosa superba*) में पर्णफलक का शीर्ष (apex) प्रतान में बदल जाता है।


इसके अतिरिक्त क्लीमेटिस (*Clematis*) में पर्णवृन्त तथा चोभचीनी (*Smilax*) में अनुपर्ण आदि प्रतान में बदल जाते हैं।



चित्र-पर्ण प्रतान—(A) मटर, (B) जंगली मटर तथा (c) क्लीमेटिस में।

2. कंटक या शूल (Spines)—वाष्पोत्सर्जन को कम करने और गौधे की सुरक्षा के लिए पत्तियों अथवा उनके कुछ भाग काँटों में बदल जाते हैं। जैसे—

- (क) नागफनी (*Opuntia*)—इसमें प्राथमिक पत्तियाँ छोटी तथा शीघ्र गिरने वाली (आशुपाता) होती हैं। कक्षस्थ कलिका से विकसित होने वाली अविकसित शाखाओं की पत्तियाँ काँटों में बदल जाती हैं।




चित्र-पर्णकंटक : (A) बारबेरी, (B) बिगनोनिया तथा (C) भूलेक्स में।

(ख) बारबेरी (barberry) में पर्वसन्धि पर स्थित पत्तियाँ स्पष्टतः काँटों में बदल जाती हैं। इनके कक्ष से निकली शाखाओं पर उपस्थित पत्तियाँ सामान्य होती हैं।

(ग) बिगनोनिया की एक जाति (*Bignonia unguis-cati*) में पत्तियाँ संयुक्त होती हैं। इनके ऊपरी कुछ पर्णक अंकुश (hooks) में बदल जाते हैं और आरोहण में सहायता करते हैं।


3. पर्ण घट (Leaf Pitcher)—कुछ कीटाहारी पौधों में कीटों को पकड़ने के लिए सम्पूर्ण पत्ती प्रसुखतः पर्णफलक एक घट (pitcher) में बदल जाता है; जैसे—नेपेन्थेज (Nepenthes)।



चित्र-(A) डिस्कीडिया का घटपर्ण (Pitcher) (B) नेपेन्थेज का घटपर्ण।

डिस्कीडिया (*Dischidia rafflesiana*) एक उपरिरोही पादप है। इसकी कुछ पत्तियाँ घटों (pitchers) में बदल जाती हैं। इसमें वर्षा का जल तथा अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। पर्वसन्धि से जड़ें निकलकर घट के अन्दर घुस जाती हैं तथा विभिन्न पदार्थों को अवशोषित करती हैं।

4. पर्ण थैली (Leaf bladders)—कुछ पौधों में पत्तियाँ या इनके कुछ भाग रूपान्तरित होकर थैलियों में बदल जाते हैं। इस प्रकार का अच्छा उदाहरण उट्रिडरवर्ट या यूट्रिलिक्सिया (*Utricularia*) है। यह पौधा इन थैलियों के द्वारा कीटों को पकड़ता है। अन्य कौटाहारी पौधों में पत्तियाँ विभिन्न प्रकार से रूपान्तरित होकर कीट को पकड़ती हैं। उदाहरण—झांसेरा (*Drosera*), डायोनिया (*Dionaea*), बटरवर्ट या पिन्चयूथीक्यूला (*Pinguicula*) आदि।



चित्र—यूट्रिलिक्सिया में पर्ण थैलियाँ।

5. पर्णाभ वृन्त (Phyllode)—इसमें पर्णवृन्त हरा, चपटा तथा पर्णफलक के समान हो जाता है; और पत्ती की तरह भोजन निर्माण का कार्य करता है; जैसे—ऑस्ट्रेलियन बबूल में।

6. शल्कपत्र (Scale Leaves)—ये शुष्क धूरे रंग की, पर्णहरितरहित, अवृन्त छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाओं की सुरक्षा करती हैं; जैसे—अदरक, हल्दी आदि में।

**प्रश्न 13.** पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के आधार का वर्णन कीजिए।

उत्तर—

### पुष्पक्रम

पुष्पी अक्ष (peduncle) पर पुष्पों के लगाने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। अनेक पौधों में शाखाओं पर अकेले पुष्प लगे होते हैं, इन्हें एकल (solitary) पुष्प कहते हैं। ये एकल शीर्षस्थ (solitary terminal) या एकल कक्षस्थ (solitary axillary) होते हैं।

पुष्पक्रम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—


- (क) असीमाक्षी पुष्पक्रम,
- (ख) सीमाक्षी पुष्पक्रम

(क) असीमाक्षी पुष्पक्रम (Racemose Inflorescence)—इसमें पुष्पी अक्ष (peduncle) की लम्बाई निरन्तर बढ़ती रहती है। पुष्प अग्राभिसारी क्रम (acropetal succession) में निकलते हैं। नीचे के पुष्प बड़े तथा ऊपर के पुष्प क्रमशः छोटे होते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं—

- (i) असीमाक्षी (Raceme)—इसमें मुख्य पुष्पी अक्ष पर सबृन्त तथा सहपत्री या असहपत्री पुष्प लगे होते हैं; जैसे—मूली, सरसों, लार्कस्पर आदि में।


(ii) स्पाइक (Spike)—इसमें पुष्पी अक्ष पर अवृत्त पुष्प लगते हैं; जैसे—चौलाई (*Amaranthus*), चिरचिटा (*Achyranthus*) आदि में।

(iii) मंजरी (Catkin)—इसमें पुष्पी अक्ष लम्बा एवं कमज़ोर होता है। इस पर एकलिंगी तथा पंखुड़ीविहीन पुष्प लगे होते हैं; जैसे—शहतूत, सेलिक्स आदि में।



छित्र—असीपाशी पुष्पक्रम—(I) सरसों का असीपाशी, (II) चिरचिटा का स्पाइक, (III) शहतूत का मंजरी, (IV) गेहूं का स्पाइकलेट, (V) आरबी का स्फूल मंजरी, (VI) कैसिया का समशिख, (VII) पुनस का पुष्पक्रम, (VIII) सूरजमुखी का मुण्डक (A, B)।

- (iv) स्पाइकलेट (Spikelet)—ये वास्तव में छोटे-छोटे स्पाइक होते हैं। इनमें प्रायः एक से तीन पुष्प लगे होते हैं। आधार पर पुष्प तुष्ट-निपत्रों (glume) से ऊपर रहते हैं; जैसे—गेहूँ, जौ, जई आदि में।
- (v) स्पूल मंजरी (Spadix)—इसमें पुष्पी अक्ष गुदेदार होती है इस पर अवृत्त, एकलिंगी पुष्प लगे होते हैं। पुष्पी अक्ष का शिखर बन्ध्य भाग अपेन्डिक्स (appendix) कहलाता है। पुष्पी अक्ष पर नीचे की ओर मादा पुष्प, मध्य में बन्ध्य पुष्प तथा ऊपर की ओर नर पुष्प लगे होते हैं। पुष्प रंगीन निपत्र (spathe) से ढके रहते हैं; जैसे—केला, ताङ, अरबी आदि में।
- (vi) समशिखा (Corymb)—इसमें मुख्य अक्ष छोटा होता है। नीचे वाले पुष्पों के पुष्पवृत्त लग्ये तथा ऊपर वाले पुष्पों के पुष्पवृत्त क्रमशः छोटे होते हैं। इससे सभी पुष्प लगभग एकसमान ऊँचाई पर स्थित होते हैं; जैसे—कैण्डीटफट, कैसिया आदि में।
- (vii) पुष्प छत्र (Umbel)—इसमें पुष्पी अक्ष बहुत छोटी होती हैं। सभी पुष्प एक ही बिन्दु से निकलते प्रतीत होते हैं तथा छत्रकरूपी रचना बनाते हैं। इसमें परिधि की ओर बड़े तथा केन्द्र की ओर छोटे पुष्प होते हैं; जैसे—धनिया, जीरा, सौंफ, मूनस आदि में।
- (viii) मुण्डक (Capitulum)—इसमें पुष्पी अक्ष एक चपटा आशय होता है। इस पर दो प्रकार के पुष्पक (florets) लगे होते हैं। परिधि की ओर रशिम पुष्पक (ray florets) तथा केन्द्रक में बिल्ब पुष्पक (disc florets)। सम्पूर्ण पुष्पक्रम एक पुष्प के समान दिखाई देता है; जैसे—सूरजमुखी, गेंदा, जीनिया, डेहलिया आदि।
- (x) ससीमाक्षी पुष्पक्रम (Cymose Inflorescence)—इसमें पुष्पी अक्ष की अग्रस्थ कलिका के पुष्प में परिवर्धित हो जाने से बृद्धि रुक जाती है। इससे नीचे स्थित पर्वसन्धियों से पार्श्व शाखाएँ निकलकर पुष्प बनाती हैं। इस कारण पुष्पों के लगने का क्रम तलाभिसारी (basipetal) होता है। इसमें केन्द्रीय पुष्प बड़ा और पुराना तथा नीचे के पुष्प छोटे और नए होते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम अग्रलिखित प्रकार के होते हैं—
- (i) एकलशाखी ससीमाक्ष (Monochasial Cyme)—इसमें पुष्पी अक्ष एक पुष्प में समाप्त होती है। पर्वसन्धि से एक बार में केवल एक ही पार्श्वशाखा उत्पन्न होती है, जिस पर पुष्प बनता है। पार्श्वशाखाएँ दो प्रकार से निकलती हैं—
    - (अ) जब सभी पार्श्व शाखाएँ एक ही ओर निकलती हैं तो इसे कुण्डलिनी रूप एकलशाखी ससीमाक्ष (helicoid uniparous cyme) कहते हैं; जैसे—मकोय, बिंगोनिया आदि में।
    - (ब) जब पार्श्व शाखाएँ एकान्तर क्रम में निकलती हैं तो इसे बृशिचकी एकलशाखी ससीमाक्ष (scorpioid uniparous cyme) कहते हैं। जैसे—हीलियोट्रोपियम, रेननकुलस आदि।
  - (ii) द्युगमशाखी ससीमाक्ष (Dichasial Cyme)—इसमें पुष्पी अक्ष के पुष्प में समाप्त होने पर नीचे की पर्वसन्धि से दो पार्श्वीय शाखाएँ विकसित होकर पुष्प का निर्माण करती हैं; जैसे—डायेन्थस, स्टीलोरिया आदि में।
  - (iii) बहुशाखी ससीमाक्ष (Polychasial Cyme)—इसमें पुष्पी अक्ष के पुष्प में समाप्त होने पर नीचे स्थित पर्वसन्धि से एकसाथ अनेक शाखाएँ निकलकर पुष्प का निर्माण करती हैं जैसे—हैमीलिया, आक आदि में। (यह छत्रक की भाँति प्रतीत होता है, लेकिन इसका केन्द्रीय पुष्प बड़ा होता है और परिधीय पुष्प छोटे होते हैं)।



जित्र-सरीमाला पुष्पक्रम—(i) कुण्डलिनी रूप एकलशाखी, (ii) वृश्चिकी एकलशाखी, (iii) चुम्पशाखी, (iv) बहुशाखी सरीमाला पुष्पक्रम।

प्रश्न 14. ऐसे फूल का सूत्र लिखिए जो त्रिज्यासमिति, उभयलिंगी, अधोजायांगी, 5 संयुक्त बाह्यदली, 5 मुक्तदली, पाँच मुक्त पुकेसरी, द्विपुक्ताण्डली तथा ऊर्ध्ववर्ती अण्डाशय हो।

उत्तर—उपर्युक्त विशेषताएँ सोलनेसी कुल के पुष्प की हैं। इसका पुष्पसूत्र निम्नवत् है—


$$\oplus \text{♀} K(5) C_5 \quad A_5 G(2)$$

प्रश्न 15. पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—पुष्पासन पर पुष्पी भागों का निवेशन

पुष्पासन पर बाह्यदल, दल, पुकेसर तथा अण्डप की स्थिति के आधार पर पुष्प निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं—

1. अधोजाय (Hypogynous)—इसमें जायांग पुष्पासन पर सर्वोच्च स्थान पर स्थित होते हैं, और अन्य अंग नीचे होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में अण्डाशय ऊर्ध्ववर्ती (superior) होते हैं; जैसे—सरसों, गुड्हल, टमाटर आदि।
2. परिजाय (Perigynous)—इसमें पुष्पासन पर जायांग तथा अन्य पुष्पीय भाग लगभग समान ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसमें अण्डाशय आधा अधोवर्ती या आधा ऊर्ध्ववर्ती होता है; जैसे—गुलाब, आढू आदि में। इसमें पुष्पासन तथा अण्डाशय संयुक्त नहीं होते।
3. उपरिजाय या अधिजाय (Epigynous)—इसमें पुष्पासन के किनारे वृद्धि करके अण्डाशय को घेर लेते हैं और अण्डाशय से संलग्न हो जाते हैं। अन्य पुष्पीय भाग अण्डाशय के कपर स्थित होते हैं। जैसे—अमरुद, अनार, लौकी आदि में।



वित्र-पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति—(A) अधोजाय, (B, C) परिजाय, (D) उपरिजाय।